



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 13] नई दिल्ली, मई 1—मई 7, 2016, शनिवार/ वैशाख 11—वैशाख 17, 1938  
No. 13] NEW DELHI, MAY 1—MAY 7, 2016, SATURDAY/ VAISAKHA 11—VAISAKHA 17, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड ( iii )  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं  
Orders, and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

**आ.अ.28** —लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग हरियाणा राज्य सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा, श्री श्रीकांत वलनद, आई.ए.एस. के स्थान पर श्री विजय दहिया, आई.ए.एस. (एच वाई: 2001) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए हरियाणा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री विजय दहिया, हरियाणा सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देने या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री विजय दहिया, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा के रूप में कार्य करते हुए हरियाणा सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

[सं. 154/एचआर/2016-पी. प्रशा.]

आदेश से,  
बी. सी. पात्रा, अवर सचिव.

## SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 27th April, 2016

**O.N.28** — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Haryana hereby nominates Shri Vijay Dahiya, IAS(HY:2001) as the Chief Electoral Officer for the State of Haryana with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri Shrikant Walgad, IAS.

2. Shri Vijay Dahiya shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Haryana, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Vijay Dahiya while functioning as the Chief Electoral Officer, Haryana shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Haryana except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/HR/2016-P.Admn.]

By Order,

B.C. PATRA, Under Secy.

## आदेश

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2016

**आ.अ.29** — यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2013 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है :-

I k j . kh

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी का नाम व पता	निर्हरता का कारण
1	2	3	4	5
1	छत्तीसगढ़ विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2013	9—लुण्ड्रा	अनिल पैकरा, ग्राम—झेराडीह, पोस्ट—बरगीडीह, जिला—सरगुजा, (छत्तीसगढ़) पिन— 497101	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2	—वही—	—वही—	विजय राम, ग्राम—रवाई, तह—लुण्ड्रा, जिला—सरगुजा, छत्तीसगढ़।	—वही—
3	—वही—	10—अम्बिकापुर	अनुराग सिंहदेव, ग्राम—केवटाली, पो.—अधिना सल्का, तह—भैयथान, जिला—सूरजपुर, छत्तीसगढ़।	—वही—
4	—वही—	—वही—	जगदीश पाण्डे, आजाद वार्ड, क्र. 13 नवापारा, अम्बिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।	—वही—
5	छत्तीसगढ़ विधान सभा	10. आम्बिकापुर	मोहम्मद रफीक खलीफा,	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा

	का साधारण निर्वाचन, 2013		नावा तालाब पारा, नवागढ़ थाना गांधीनगर अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़।	दाखिल करने में असफल रहे।
6	—वही—	—वही—	राजकुमार सिंह, पंचदेव मंदिर के पास, गुरुद्वारा वार्ड क्रमांक-32 अम्बिकापुर, जिला—सरगुजा, छत्तीसगढ़।	—वही—
7	—वही—	22—कटघोरा	प्रकाश अनंत, सर्वोदय नगर पाली, अनंत निवास, पोस्ट—पाली, जिला—कोरबा, छत्तीसगढ़।	—वही—
8	—वही—	36—चन्द्रपुर	कुंजेश्वर कुमार राठौर, मु.पा. सपिया, तह0मालखरौदा, थाना—डभरा, जिला—जांजगीर—चाम्पा, छत्तीसगढ़।	—वही—
9	—वही—	41—खल्लारी	नीलकंठ दीवान, ग्राम—घोयनाबाहरा, पोस्ट—कोमाखान, तहसील—बागबाहरा, जिला—महासमुन्द, छत्तीसगढ़।	—वही—
10	—वही—	59—संजारी बालोद	श्री रिखीराम साहू, ग्राम +पोस्ट—खुन्दनी, तह. गुरुर जिला बालोद (छत्तीसगढ़)।	—वही—
11	—वही—	84—नाराणपुर	सुशील कुमेटी, ग्राम+पोस्ट—बिजली, तहसील जिला—नारायणपुर छत्तीसगढ़।	—वही—

[सं. 76/छ.ग.—वि.स./2013]

आदेश से,

के. एन. भार, सचिव

**ORDER**

New Delhi, the 28th April, 2016

**O.N.29** —Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2013 from the State of Chhattisgarh as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name, has failed to lodge any account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission, or after considering the representation if any, made by them, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order:-

TABLE

S.No.	Particulars of Election	Number & Name of the Assembly Constituency	Name & Address of the Candidate	Reason of disqualification
1	2	3	4	5
1	General Election to the Legislative Assembly 2013 from the State of Chhattisgarh	9-Lundra(ST)	Anil Painkra Village- Jheradih, Post- Bargidih, District- Surguja, Chhattisgarh. Pin- 497101	Failure to lodge any account of election expenses
2	-Do-	-Do-	Vijay Ram Village- Ravai, Tahsil- Lundra, District- Surguja Chhattisgarh.	-Do-
3	-Do-	10-Ambikapur	Anurag Singh Deo Village kewtali Po Aghina Salka, Tah-Bhaiyathan, Distt- Surajpur, Chhattisgarh.	-Do-
4	-Do-	-Do-	Mohamad Rafik Khalifa Nawa Talab Para, Nawagarh Police Station Gandhinagar Ambikapur, Chhattisgarh.	-Do-
5	-Do-	-Do-	Jagdish Pandey Azad Ward No. 13 Nawapara, Ambikapur, Surguja, Chhattisgarh.	-Do-
6	-Do-	-Do-	Rajkumar Singh Near of Panchdeo Temple, Gurudwara ward No.-32 Ambikapur, Distt-Surguja, Chhattisgarh.	-Do-
7	-Do-	22-Katghora	Prakash Anant Sarvodaya Nagar Pali, Anant Nivas, Post-Pali, Dist-Korba, Chhattisgarh.	-Do-
8	-Do-	36-Chandrapur	Kunjeshwar Kumar Rathore Village + Post Sapiya, Tahsil, Malkharoda, Thana Dhabara Distt,- Janjgir-Champa, Chhattisgarh.	-Do-
9	-Do-	41-Khallari	Nilkanth Diwan Vill-Ghhoyanabahara, Post-Komakhan , Tah-Bagbahra Chhattisgarh.	-Do-
10	-DO-	59-Sanjari Balod	Rikhiram Sahu , House No.-42 Village and Post-Khundani, Tehsil- Gurur, District Balod, Chhattisgarh.	-Do-
11	-Do-	84-Narayanpur (ST)	Sushil Kumeti Village+Post-Binjli, Tahsil+Distt.-Narayanpur, Chhattisgarh.	-Do-

[No. 76/CG-LA/2013]

By Order,

K. N. BHAR, Secy.